



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन 1931 (श0)
(सं0 पटना 185) पटना, शुक्रवार, 19 मार्च 2010

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

18 मार्च 2010

एस0 ओ0 55, दिनांक 19 मार्च 2010—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार-राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-02 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1(अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई 2009	160	4.63x4.93	3652.15
अगस्त 2009	162	4.63x4.93	3697.80
सितम्बर 2009	163	4.63x4.93	3720.63
अक्टूबर 2009	165	4.63x4.93	3766.28
नवम्बर 2009	168	4.63x4.93	3834.75
दिसम्बर 2009	169	4.63x4.93	3857.58
योग		-	22529.19
औसत		22529.19 ÷ 6 =	3754.87

अनुसूची-1(ब)

कृषि नियोजन, अधिसूचना सं०-3325 दि०-1 जुलाई 2008

अनुसूची-1।

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	मूल न्यूनतम मजदूरी+ भी०डी०ए० दि०-1.04.09 एवं 01.10.09 तक (रुपये में)	भी०डी०ए० प्रभावी की तिथि दि०-1.04.2010 से (रुपये में)	कुल मजदूरी (3+4) दि०-1.04.2010 से (रुपये में)
1	2	3	4	5
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए ।	85.00+12.00+02.00= 99.00 प्रतिदिन	10.00	109.00 प्रतिदिन
2	ट्रेक्टर ड्राईवर एवं पम्प ऑपरेटर ।	3066.00+431.00+83.00 = 3580.00 प्रतिमाह	355.00	3935.00 प्रतिमाह
3	ट्रेक्टर खलासी / पम्प खलासी/ चौकीदार/सिपाही ।	2386.00+335.00+65.00 = 2786.00 प्रतिमाह	276.00	3062.00 प्रतिमाह
4	कटनी	-	-	काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई है । उपर्युक्त सूचकांक में यथोस्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा । परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो उक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई—दिसम्बर, 2009 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2010 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा ।

(संख्या-5/एम०डब्लू०-402/09-श्र०सं०-1197)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गरीब साहु,

सरकार के अपर सचिव।

18 मार्च 2010

एस० ओ० 56, एस० ओ० 55, दिनांक 19 मार्च 2010 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(संख्या-5/एम०डब्लू०-402/09-श्र०सं०-1198)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गरीब साहु,

सरकार के अपर सचिव।

The 18th March 2010

S.O. 55, dated 19th March 2010—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section 5 of the said act and also consulting the Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for variable dearness Allowance in the Minimum Rate of Wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the employment mentioned in column 02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-2 of the said schedule shall be shown in column 04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section 02 of the said Act.

SCHEDULE- 1(A)

Month & Year	Index No. Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1.	2.	3.	4.
July 2009	160	4.63x4.93	3652.15
August 2009	162	4.63x4.93	3697.80
September 2009	163	4.63x4.93	3720.63
October 2009	165	4.63x4.93	3766.28
November 2009	168	4.63x4.93	3834.75
December 2009	169	4.63x4.93	3857.58
Total		-	22529.19
Average	22529.19÷6=		3754.87

Schedule-1(B)
Agriculture Operations 3325, dt.1st July 2008
Schedule-II

Sl.	Category of Workers	Basic Minimum Wages +V.D.A. 1-04-09 & 01.10.09 (In. Rs.)	V.D.A Effective Date 01-04-2010	Total Wage (3+4)
1	2	3	4	5
1	All other agricultural operations except harvesting	85.00+12.00 +02.00= 99.00 Per day	10.00	109.00 Per day
2	Tractor Driver and Pump operator	3066.00+431.00+83.00 = 3580.00 Per month	355.00	3935.00 Per month
3	Tractor Khalasi / Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi	2386.00+335.00+65.00= 2786.00 Per Month	276.00	3062.00 Per month
4	Harvesting	-	-	One bundle in 10 bundle of harvested crops.

The rates of variable dearness Allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the variable Dearness Allowance has been fixed/ revised in the above schedule employment's there will be increase or decrease in wage of rates shown in colum-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employment and will be deemed as variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates or wages have been fixed/ revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of July—December, 2009 will be payable at the aforesaid rates from April, 2010 and there after increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of the three said period of six months.

(No. 5/M.W- 402/09-L&R—1197)

By order of the Governor of Bihar,

GARIB SAHU,

Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 185-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>